



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1491]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2006/अग्रहायण 24, 1928

No. 1491]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2006/AGRAHAYANA 24, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2006

(आय-कर)

का.आ. 2111(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, जीरो कूपन बंधपत्र के रूप में निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ बंधपत्र को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

- | | |
|--|---|
| (क) बंधपत्र का नाम | — राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का दस वर्षीय जीरो कूपन बंधपत्र ; |
| (ख) बंधपत्र की जीवन अवधि | — दस वर्ष ; |
| (ग) बंधपत्र के जारी होने का निश्चित समय | — 31 मार्च, 2009 को या उसके पूर्व जारी होने के लिए ; |
| (घ) बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर संदेय की जानी वाली रकम | — प्रत्येक बंधपत्र के लिए बीस हजार रुपए ; |
| (ङ) बट्टा | — बंधपत्र के जारी होने के समय नाबार्ड द्वारा विनिश्चय किया जाना है ; |
| (च) जारी किए जाने वाले बंधपत्रों की संख्या | — एक करोड़ तीन लाख और दस हजार ; |

2. यह अधिसूचना आय-कर नियम, 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (3) के खंड (ii), खंड (iii), और खंड (v) और उप-नियम (6) में निर्दिष्ट शर्तों के पूरा करने के अधीन है ।

[अधिसूचना सं. 372/2006/फा.सं. 142/32/2006/टीपीएल]

संजित त्रिपाठी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2006

(Income-tax)

S.O. 2111(E).—In exercise of the powers conferred by clause 48 of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the bond with the following particulars as zero coupon bond for the purposes of the said clause, namely :—

- | | |
|---|--|
| (a) name of the bond | — ten years zero coupon bond of National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD); |
| (b) period of life of the bond | — ten years; |
| (c) the time schedule of the issue of the bond | — to be issued on or before the 31st day of March, 2009; |
| (d) the amount to be paid on maturity or redemption of the bond | — twenty thousand rupees for each bond; |
| (e) the discount | — to be decided by NABARD at the time of issue of the bond; and |
| (f) the number of bonds to be issued | — one crore three lakhs and ten thousand. |

2. This notification is subject to the fulfillment of conditions referred to in clause (ii), clause (iii) and clause (v) of sub-rule (3) and sub-rule (6) of rule 8B of the Income-tax Rules, 1962.

[Notification No. 372/2006/E.No. 142/32/2006/TPL]

SAMBIT TRIPATHY, Under Secy.